

## TheHitavada

Jabalpur City Line | 2023-07-15 | Page-1  
ehitavada.com

# Director General Rawat releases documentary film, book at TFRI



Director General Rawat releases the documentary film and a book during his visit at TFRI.

### ■ Staff Reporter

A S Rawat, IFS, Director General, Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun on Saturday, visited Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur to monitor the research, extension activities

and involvement of stakeholders in the research programme of the institute. During his visit Director General Rawat also released documentary film on 'Management of Flyash through Forestry Interventions' and a book on 'Floral diversity of Kanha Tiger Reserve (Sarhi  
(Contd on page 3)

## TheHitavada

Jabalpur City Line | 2023-07-15 | Page-3  
ehitavada.com

### Director General Rawat releases...

Range) prepared by the Forest Ecology & Climate Change Division of the institute. A bamboo workshop was also inaugurated by him

during his visit at TFRI Jabalpur. The program concluded with a commemorative plantation drive inside the TFRI campus.

Powered by iDocument

www.rajexpress.co

राज एक्सप्रेस

5

# महाबनगर

जबलपुर

रविवार, 16 जुलाई 2023



## महानिदेशक ने किया टीएफआरआई का दौरा

जबलपुर (आरएनएन)। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद आईसीएफआरआई देहरादून के महानिदेशक एस रावत ने उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, टीएफआरआई पहुंचे। अपने दौरे में उन्होंने संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रम में अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों की जांच के लिए आला अधिकारियों से जानकारी भी ली। महानिदेशक ने टीएफआरआई के वन

पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा तैयार वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से फ्लाइएश के प्रबंधन पर वृत्तचित्र फिल्म और कान्हा टाइगर रिजर्व-सरही रेंज की पुष्प विविधता पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। महानिदेशक रावत द्वारा बांस कार्यशाला का भी उद्घाटन किया गया। दौरे के समापन पर टीएफआरआई परिसर में पौधारोपण भी किया।



## भारतीय वानिकी अनुसंधान के महानिदेशक का भ्रमण स्थानीय भाषा में हो शोध, आम लोगों तक पहुंचे

पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com



जबलपुर, ऊष्ण कटीबंधीय वन अनुसंधान केन्द्र (टीएफआरआई) के वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं, वह आमजनों के लिए हैं। जिन हितग्राहियों के लिए शोध किया जा रहा है, उनमें से कई अंग्रेजी नहीं जानते। ऐसे में उन तक रिसर्च को पहुंचाना चुनौती है। इसलिए यह याद रहे कि शोध केवल किताबों तक ही न रहे। उसे स्थानीय भाषा में हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए। जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। यह बात शनिवार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के महानिदेशक एस रावत ने टीएफआरआई के वैज्ञानिकों से कही।

**वृत्तचित्र व पुस्तक का विमोचन-** टीएफआरआई के वन पारिस्थितिक और जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा तैयार वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से फ्लाइंग का प्रबंधन पर बनाई गई

किताबों तक न हो रिसर्च, लोकल भाषा में हितग्राहियों तक पहुंचे

### परियोजनाओं पर बात

टीएफआरआई में 50 परियोजनाओं पर शोध किया जा रहा है। महानिदेशक रावत ने शोधकर्ताओं और प्रभारियों से अलग-अलग बातचीत की और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि प्रोजेक्ट्स को समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि यह लोगों के काम आ सके।

डॉक्यूमेंट्री और कान्हा टाइगर रिजर्व की पुष्प विविधता पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। महानिदेशक रावत ने बांस पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ और पौधरोपण किया।

### मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के निर्देश

टीएफआरआई द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के वन मंडलों की मृदा का परीक्षण किया जा रहा है। टीएफआरआई द्वारा मप्र के वन मंडलों की भूमि का स्वाइल हेल्थकार्ड जारी कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की मृदा का स्वाइल्स हेल्थकार्ड जारी नहीं किया गया है, इस पर महानिदेशक रावत ने जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र का स्वाइल्स हेल्थकार्ड जारी करने के निर्देश दिए।

## रोपे पौधे, वृत्त चित्र का किया विमोचन

जबलपुर। एक ओर वृत्त चित्र का विमोचन हुआ तो वहीं दूसरी ओर पौधरोपण भी किया गया। अवसर था टीएफआरआई में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के महानिदेशक आईएफएस एस रावत के दौरे का। उन्होंने



संस्थान के वन पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा तैयार 'वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से फ्लाइंग का प्रबंधन' पर वृत्तचित्र फिल्म और कान्हा टाइगर रिजर्व (सरही रेंज) की पुष्प विविधता" पर पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही बांस कार्यशाला का शुभारंभ भी किया गया।

